



राष्ट्रीय आई.सी.टी.
पुरस्कार : एक परिचय

राष्ट्रीयआई सी टी पुरस्कार की पृष्ठभूमि


- बड़े पैमाने पर स्कूली शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए वर्ष 2010 से हर वर्ष राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार दिए जाते हैं।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अपेक्षित संख्या में पुरस्कार विजेताओं का चयन और अनुशंसा के लिए एक व्यवस्थित चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है,
- इसके तहत विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों/संगठनों के शिक्षकों के लिए आईसीटी पुरस्कार संस्थित किये गये हैं। 2021 से पुरस्कारों की दो नई श्रेणियां शुरू की गई हैं पहली शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए और दूसरी उत्तम प्रयासरत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए।

राष्ट्रीयआई सी टी पुरस्कार की पृष्ठभूमि

- यह पुरस्कार उन शिक्षकों, शिक्षक शिक्षकों और सर्वोत्तम प्रयास करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समर्पित है जिन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम और विषय शिक्षण में प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षण को प्रभावी ढंग से और नवाचारी रूप से एकीकृत करके छात्रों के सीखने की प्रक्रिया गुणवत्तापूर्ण बनाया है, और छात्रों के बीच आईसीटी का उपयोग करके अन्वेषण आधारित सहकारी-सहयोगी शिक्षा को बढ़ावा दिया है

डिजिटल इंडिया कैम्पेन (2015) भारत को एक डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत करने के लिए प्रयासरत है इस कैम्पेन के मुख्य तीन विज़न है

क्षेत्र 1
ई-गवर्नेंस और मांग पर सेवाएं



क्षेत्र 3
डिजिटल साक्षरता के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण

क्षेत्र 2
प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

राष्ट्रीय आई सी टी पुरस्कार के लिए कौन - कौन आवेदन कर सकता है

शिक्षक

- 1) राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा संचालित विद्यालय, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालय, राज्य बोर्ड से संबद्ध निजी विद्यालय, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त निजी विद्यालय।
- 2) केंद्रीय सरकार के विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विद्यालय, सैनिक स्कूल, परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति (AEES) द्वारा संचालित विद्यालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और भारत सरकार के तहत अन्य मंत्रालयों/संगठनों द्वारा संचालित विद्यालय।
- 3) काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) से संबंधित विद्यालय (उपर्युक्त 1 और 2 में वर्णित के अलावा)
- 4) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबंधित विद्यालय

राष्ट्रीय आई सी टी पुरस्कार के लिए कौन - कौन आवेदन कर सकता है

शिक्षक प्रशिक्षक

- BIETs, DIETs, CTE, IASEs, SIEMAT, SCERT, SIEs, SIETs और केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और निजी विश्वविद्यालयों (2021 के बाद से) द्वारा संचालित कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षक।

उत्तम प्रयासरत राज्य / केंद्र शासित प्रदेश

- संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (2021 के बाद से) द्वारा उत्तम प्रयासों के लिए एसपीडी / राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव।


वर्ष 2020 और वर्ष 2021के लिए पुरस्कारों की श्रेणियाँ

पुरस्कार श्रेणी

वर्ष 2020

- विद्यालयी शिक्षक

वर्ष 2021 से

- विद्यालयी शिक्षक
 - शिक्षक प्रशिक्षक
 - सर्वोत्तम प्रयासरत राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
- 

चयन/मूल्यांकन की प्रक्रिया

- <https://ictaward.ncert.gov.in> पोर्टल पर शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष स्वयं अपना नामांकन और सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें ।
- शिक्षा निदेशालय, प्रमुख सचिव/सचिव (स्कूली शिक्षा)/एसपीडी-समग्र शिक्षा/संबंधित संगठन के मुख्यालय जैसे के.वि.सं., न.वि.स, के.मा.शि.बो, सी.आई.एस.ई., रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक स्कूलों और प.ऊ.शि.सं. की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति की मदद से मूल्यांकन कर राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित उम्मीदवारों को अग्रेषित करेगा ।
- राज्य स्तर पर चुने गए उम्मीदवारों को के.शै.प्रौ.सं.-रा.शै.अ.प्र.प. में निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण देना होगा।
- समिति, मंत्रालय को अपेक्षित संख्या में पुरस्कार विजेताओं की अनुशंसा उचित तर्कसंगतता के साथ करेगी। शिक्षा मंत्री के अनुमोदन से पहले मंत्रालय स्तर पर भी प्रस्ताव की जांच की जाएगी ।

स्कूली शिक्षकों द्वारा जीते गए वर्षवार राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार

पोर्टल -

<https://ictaward.ncert.gov.in/WelcomeH.aspx>

